

तुरंत रिलीज के लिए

## सिटी ऑफ ब्रैम्पटन इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट में निवेश और वृद्धि को संचालित करना जारी रख रही है

*इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट साझेदारियों के द्वारा 55 मिलियन डॉलर से अधिक राशि की प्रतिबद्धता की गई*

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (14 अक्टूबर, 2021) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, इनोवेशन और स्टार्टअप ईकोसिस्टम: *ब्रैम्पटन इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट (Brampton Innovation District)* बनाकर अपने डाउनटाउन के पुनर्निर्माण और और इसकी आर्थिक क्षमता का अधिक से अधिक लाभ उठाना जारी रख रही है। 2019 में समझौते शुरू करके, सिटी ने अपने इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट में इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट के साझेदारों के द्वारा किए जा रहे निवेशों में, लगभग 55.2 मिलियन डॉलर के अतिरिक्त निवेश के साथ, लगभग 20.5 मिलियन डॉलर का निवेश प्रतिबद्ध किया है।

2019 से 2021 तक, छह साझेदारियों ने इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट में अपनी मौजूदगी स्थापित की है। ब्रैम्पटन इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट में साझेदारों में शामिल हैं, उद्यमी, बिजनेस इन्क्यूबेशन, पोस्ट-सेकंडरी ट्रेनिंग और गतिवर्धक जगहों, जैसे ब्रैम्पटन एंटरप्रीनियर सेंटर (Brampton Entrepreneur Centre), BHive ब्रैम्पटन (BHive Brampton), रायरसन-संचालित वेंचर ज़ोन (Ryerson-led Venture Zone), अल्टीट्यूड एक्सेलरेटर (Altitude Accelerator), फाउंडर इंस्टीट्यूट (Founder Institute), अल्गोमा यूनिवर्सिटी (Algoma University) और रोजर्स साइबरसिक्योर कैटालिस्ट हेडक्वार्टर्स एंड एक्सेलरेटर (Rogers Cybersecure Catalyst Headquarters and Accelerator)। शेरिडन एज (Sheridan Edge), ब्रैम्पटन बोर्ड ऑफ ट्रेड (Brampton Board of Trade) और डाउनटाउन ब्रैम्पटन बी.आई.ए. (Downtown Brampton BIA) भी, इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट बनाने में महत्वपूर्ण साझेदार हैं।

टर्म ऑफ काउंसिल प्राइरिटीज (Term of Council Priorities) पर आधारित, जारी परिवर्तनशील पहलकदमियां, संपूर्ण कम्युनिटीज बनाने, आर्थिक क्षमता का अधिक से अधिक लाभ उठाने और ब्रैम्पटन को इनोवेशन कॉरिडोर (Innovation Corridor) पर बेजोड़ पोजीशन पर लाने में मदद करेंगी।

कोविड-19 (COVID-19) के दौरान, सिटी ने डाउनटाउन निवेश को बढ़ाने और ब्रैम्पटन के केंद्र में नए विकास को बढ़ाने के लिए काम जारी रखा है। सिटी के इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट का लगातार विकास, इसकी [इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रैटजी \(Economic Recovery Strategy\)](#) का मुख्य हिस्सा है और लगातार वृद्धि के लिए तैयार किए गए सेक्टर्स पर ध्यान केंद्रित करके सिटी को महामारी के प्रभावों से निकलने में मदद करेगा, जैसे साइबरसिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।

इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट के बारे में अधिक जानने के लिए, [www.bramptoninnovationdistrict.com](http://www.bramptoninnovationdistrict.com) पर जाएं या इस इनोवेशन ईकोसिस्टम के प्रभावों को उजागर करने वाला सिटी का [वीडियो \(video\)](#) देखें।

### संक्षिप्त तथ्य

- सिटी और इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट साझेदारों ने, इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट में प्रगतिशीलता, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप के लिए उत्साहित करने और इसे आगे बढ़ाने के लिए तैयार किए, 3,288 सेशनस, वर्कशॉप्स और कार्यक्रमों की मेजबानी की है। इन सेशनों में शामिल हैं, कारोबार संबंधी आमने-सामने मशविरे, ट्रेनिंग, शुरुआती स्टार्टअप संबंधी वर्कशॉप्स और साइबरसिक्योरिटी शिक्षा अभियान। इनमें 12,000 से अधिक भागीदार शामिल हुए थे।
- इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट साझेदारों ने डाउनटाउन ब्रैम्पटन में कुशल इम्प्लॉयमेंट अवसर प्रदान करना जारी रखा है और अब तक 49 कर्मचारियों को काम पर रखा है। BHive ब्रैम्पटन ने मई 2021 में शुरुआत के बाद 73 शुरुआती स्टार्टअप शामिल किए और उनके इन्क्यूबेटर प्रोग्राम में 14 अंतर्राष्ट्रीय शुरुआती स्टार्टअप स्वीकार किए हैं।
- जुलाई में, सिटी ने घोषणा की थी कि उसने अपने परिवर्तनशील सेंटर फॉर इनोवेशन (Centre for Innovation) के लिए आर्किटेक्ट के तौर पर डायमंड शमिट (Diamond Schmitt) का चयन किया है। सी.एफ.आई. (CFI), केंद्रीय तौर पर ब्रैम्पटन के डाउनटाउन कोर के बीच में स्थित होगा और यह शहर में, अल्गोमा यूनिवर्सिटी (Algoma University), रायरसन यूनिवर्सिटी (Ryerson University) और यूनिवर्सिटी ऑफ गल्फ-हम्बर (University of Guelph-Humber) जैसे मौजूदा और भविष्य के पोस्ट सेकंडरी इंस्टीट्यूशंस की मौजूदगी की हिमायत करेगा। यह पोस्ट सेकंडरी इंस्टीट्यूशंस को, लोकल कारोबारों और शुरुआती उद्यमों के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और ब्रैम्पटन के कार्यबल को भविष्य की कुशल वाली नौकरियों के साथ जुड़ने में मदद करेगा। यह शहर में डाउनटाउन ब्रैम्पटन गो (Downtown Brampton GO) स्टेशन से आने-जाने वाले ट्रेन यात्रियों के लिए एक गेटवे और लैंडमार्क होगा।
- रोजर्स साइबरसिक्योर कैटालिस्ट को, इम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स डेवेलपमेंट कैंनेडा (Employment and Skills Development Canada) की ओर से, फ्यूचर स्किल्स सेंटर प्रोग्राम (Future Skills Centre Program) के द्वारा 1.9 मिलियन डॉलर हासिल हुए हैं। इस फंड का प्रयोग एक्स्लरेटेड साइबरसिक्योरिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम (Accelerated Cybersecurity Training Program) के विस्तार में सहायता के लिए किया जाएगा, ताकि यह अधिक विविध शिक्षार्थियों तक पहुंच पाए और यह रिसर्च की जा सके कि ट्रेनिंग प्रोग्राम, विविध डेमोग्राफिक समूहों तक कैसे पहुंच सकते हैं।

### हवाले

“ब्रैम्पटन में रोमांचक परिवर्तन हो रहा है और हमारे साझेदारों के साथ इकट्ठे मिलकर, हम हमारे इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट को एक बड़े शिक्षा और प्रगतिशील केंद्र (हब) में विकसित करने के लिए जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स स्थापित कर रहे हैं। चूंकि हम कोविड-19 महामारी के इस अगले पड़ाव से बाहर निकलकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, हम लोकल प्रतिभा को विकसित करते हुए, उद्यमियों को सहयोग करते हुए और हमारे निवासियों और कारोबारियों के लिए आर्थिक बहाली को बढ़ाते हुए, गतिशील स्टार्टअप कम्युनिटी में वृद्धि कर रहे हैं। ब्रैम्पटन सचमुच इनोवेशन में ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हमारे इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट का लगातार विकास, सिटी की इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रैटजी का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमारे साझेदारों के साथ इकट्ठे मिलकर, हमारे डाउनटाउन कोर में निवेश पैदा करना जारी रखा है, क्योंकि हम कोविड-29 महामारी के प्रभावों से बाहर निकलकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे परिवर्तनकारी सेंटर फॉर इनोवेशन के साथ आगे बढ़कर और ब्रैम्पटन को प्रगतिशील तथा उद्यमी केंद्र के तौर पर स्थापित करके, हम डाउनटाउन ब्रैम्पटन में वृद्धि कर रहे हैं, जो हमारे निवासियों को लाभ पहुंचाएगा।”

- मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; चेयर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हम हमारे डाउनटाउन के पुनर्निर्माण और इसकी आर्थिक क्षमता का अधिकतम लाभ ले रहे हैं और हमारे इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट में महत्वपूर्ण पहलकदमियों को आगे बढ़ाकर संपूर्ण कम्युनिटीज बना रहे हैं, जो हमारे निवासियों, विद्यार्थियों और उद्यमियों को लाभ पहुंचाएंगी। ब्रैम्पटन का अर्थ है कारोबार, और इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट के हमारे बहुमूल्य साझेदारों के साथ इकट्ठे मिलकर, हम हमारे शहर के बिल्कुल बीच में, श्रेष्ठ शिक्षा और प्रगतिशील केंद्र बना रहे हैं।”

- पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; वाइस-चेयर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट एंड कल्चर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, हमारी संपूर्ण कम्युनिटी को लाभ पहुंचाने के लिए हमारे शहर को शिक्षा और प्रगतिशील केंद्र में विकसित करने हेतु लगातार नेतृत्व कर रही है। कैंनेडा के इनोवेशन कॉरिडोर पर हमारी मुख्य जगह, बहुमूल्य साझेदारियां, कुशल और विविध टेलेंट पूल के साथ, हम हमारे डाउनटाउन की क्षमता का अधिक से अधिक लाभ ले रहे हैं और निवासियों, विद्यार्थियों तथा उद्यमियों के आगे बढ़ने हेतु इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं।”

- डेविड बैर्रिक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैंनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

**मीडिया संपर्क**

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)